




# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 48]  
No. 48]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 1999/माघ 16, 1920  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 1999/MAGHA 16, 1920

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 66 (अ).—केन्द्रीय सरकार, संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (टेलीफोन और सचिवालय प्रसुविधाएं) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में,—

- (i) "अधिनियम" से संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) अभिप्रेत है।
- (ii) "मान्यता प्राप्त दल" और "मान्यता प्राप्त समूह" पदों का वही अर्थ है जो संसद में मान्यता प्राप्त दलों तथा समूहों के नेता और मुख्य सचेतक (प्रसुविधाएं) अधिनियम, 1998 (1999 का 5) की धारा 2 में है।
- (iii) "नेता" से संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) की धारा 2 में यथापरिभाषित विपक्ष के नेताओं से भिन्न किसी मान्यता प्राप्त दल या मान्यताप्राप्त समूह का नेता अभिप्रेत है।

3. टेलीफोन प्रसुविधाएं.—(1) किसी मान्यता प्राप्त दल या समूह का प्रत्येक नेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक, दिल्ली या नई दिल्ली में उसके निवास पर या उसके कार्यालय में स्थापित टेलीफोन से और उसके औपचारिक निवास स्थान या संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) के अधीन विरचित आवासन और टेलीफोन प्रसुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम (1) और उपनियम (3) के अधीन उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर स्थापित टेलीफोन से उसके नेता या मुख्य सचेतक के कर्तव्यों के निर्वहन में एक वर्ष में एक साथ पूल में रखे गए दस हजार स्थानीय काल की बाबत कोई भुगतान करने का दायी नहीं होगा :

परन्तु यह कि किसी मान्यता प्राप्त दल या मान्यताप्राप्त समूह के नेता और मुख्य सचेतक को अनुज्ञेय दस हजार निःशुल्क स्थानीय काल, उक्त नियमों के अधीन संसद सदस्य के रूप में उनको अनुज्ञेय किन्हीं निःशुल्क कॉलों के अतिरिक्त होंगी।

(2) मान्यता प्राप्त दल या समूह के नेता और मुख्य सचेतक के ट्रंक-काल बिलों को प्रतिवर्ष उपरोक्त दस हजार स्थानीय कॉलों की धनीय समतुल्य सीमा के भीतर समायोजित किया जा सकेगा।

4. सचिवीय प्रसुविधा.—किसी मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह का प्रत्येक नेता और प्रत्येक मुख्य सचेतक निम्नलिखित सचिवीय प्रसुविधा का हकदार होगा :—

आशुलिपिक —एक  
(8000-13500 रु. के वेतनमान  
में निजी सचिव ग्रेड III)

5. प्रसुविधाओं का अस्थाई और सह-विस्तारी होना.—इन नियमों के नियम 3 और नियम 4 के अधीन अनुज्ञेय टेलीफोन और सचिवीय प्रसुविधाएं, मान्यता प्राप्त दल या मान्यता प्राप्त समूह के नेता या मुख्य सचेतक की पदावधि के साथ अस्थाई और सह-विस्तारी होंगी।

[सं. फा. 2(1)/98-अनु. और सम्म.]  
देवराज तिवारी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1999

G.S.R. 66(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title.**—(1) These rules may be called the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Telephone and Secretarial Facilities) Rules, 1999.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules,—

- (i) “Act” means the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999).
- (ii) the expressions “recognised party” and “recognised group” shall have the meaning assigned to them under section 2 of the Leaders and Chief Whips of Recognised Parties and Groups in Parliament (Facilities) Act, 1998 (5 of 1999).
- (iii) “leader” means the leader of a recognised party or recognised group other than the Leaders of the Opposition as defined in section 2 of the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977).

3. **Telephone Facilities.**—(1) Each leader and each chief whip of a recognised party or group shall not be liable to make any payment in respect of ten thousand local calls in a year, pooled together, made in the discharge of his duties as leader of chief whip, from the telephone installed either at his residence or at his office in Delhi or New Delhi and from the telephone installed at his usual place of residence, or at a place selected by him under sub-rules (1) and (3) of rule 4 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules) framed under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) :

Provided that the ten thousand free local calls admissible to the leader and chief whip of a recognised party or recognised group shall be in addition to any free calls admissible to them as Members of Parliament under the said rules.

(2) The trunk call bills of the leader and chief whip of the recognised party or group may be adjusted within the monetary equivalent of the ceiling of the aforesaid ten thousand local calls per annum.

4. **Secretarial facility.**—Each leader and each chief whip of a recognised party or recognised group shall be entitled to the following secretarial facility :—

Stenographer —one  
(Private Secretary Grade III  
in the pay scale of  
Rs. 8000—13,500)

5. **Facilities to be temporary and co-terminus.**—The telephone and secretarial facilities admissible under rules 3 and 4 of these rules shall be temporary and co-terminus with the tenure as the leader or chief whip of the recognised party or recognised group.

[F. No. 2(1)/98-R&C]  
D. R. TIWARI, Jt. Secy.